

3/5

Request 95

Registered Post

From,
Ram Prasad,
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at,
Allahabad.

To,
The District Judge,
Baghpat.

125

No. 6048 /IV-3745/Admin.(A)

Dated : May, 09th, 2019

Subject: Grant of three advance increments to Sri ^{Kushter} Kushter, Danish, Civil Judge (Senior Division), Baghpat on account of possessing degree of LL.M.

Sir,
with reference to your endorsement No. 553/XV dated 16.03.19, on the aforesaid subject, I have to say that Sri ^{Kushter} Kushter, Danish, Civil Judge (Senior Division), Baghpat has submitted xerox copy of degree of LL.M which is insufficient for the purpose. Rather, attested copies of both year mark-sheets (Previous & Final) as well as degree of LL.M are required to be submitted.

Besides, I have to say that in order to be considered eligible for availing three advance increments, inclusion of qualification of LL.M in service records is a mandatory prerequisite, which is still lacking in instant matter.

I, therefore, request you to kindly ask Sri ^{Kushter} Kushter, Danish, aforesaid to submit copies of mark-sheets & degree of LL.M. (in 2 sets), bearing original attestation made by competent officer, accompanied with prayer for inclusion of said qualification in ^{his} ~~your~~ service records and subsequent grant of three advance increments, to this Court, so that further necessary action may be taken in instant matter.

Yours faithfully,

R.P.
21/5/2019
Deputy Registrar (M)

DR (M)
Sri Kushter Danish, Civil Judge (sen), Baghpat
has not submitted attested copies of degree
and mark sheets of LL.M. Besides, same has
not yet been included in his service records.
In this respect, may kindly see instant
draft to see &
Tranti D. S.

01/05/19

R.O.
Dr. Jaiswal
01-05-19
AR

मात्र पत्र
25/3/2019

Reg No 95

1-4-19

Reg. No
File No
Serial No

5876
3945

121
3-4-19
4-4-19

Bindo
11-4-19

प्रेषक,

खुशतर दानिश
सिविल जज (सी० डि०),
बागपत।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
बागपत।

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-1363 / दो-4-2009-45(12) / 91 टी०सी०, नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ दिनांकित 13 मई, 2010 के सम्बन्ध में:-

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1363 / दो-4-2009-45(12) / 91 टी०सी०, नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ दिनांकित 13 मई, 2010 के अनुक्रम में, जो प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2002 के अनुपालन के सम्बन्ध में है, स्नातकोत्तर उपाधि धारक, उ०प्र० राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि देय है। मेरे द्वारा वर्ष 2005 में एलएल०एम० कर लिया गया था। दिनांक 08.06.2009 को मेरे द्वारा जनपद न्यायालय अमरोहा में सिविल जज (जू०डि०) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया था।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त तीन वेतन वृद्धियां दिलाये जाने के आदेश पारित करने हेतु इस प्रार्थनापत्र पत्र को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर,

भवदीय,

(Signature)

(खुशतर दानिश)
सिविल जज (सी० डि०),
बागपत।

दिनांक 16.03.2019

396

28 MAR 2019

49
Dec 11
we

कार्यालय: जनपद न्यायाधीश बागपत
पत्र संख्या 553/एए दिनांक 16-3-19
अप्रसारित
जनपद न्यायाधीश,
बागपत।

DR(RR)Admu
SOAdmu, A1
RPd
29/3/2019
DR

Mrs Sanita
Ms Bansti
(Signature)
12.04.19

Request 95

1207/3724

M 97/3151

L 055264

श्रीधर चरण सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर



विधि निष्ठात

प्रतिष्ठित विधि शाखा में श्री सुभाकर दामोदर
 का नाम/नामक सेनादि उल्लिखित प्रमाण के साथ परीक्षा प्राप्त
 की है। इन विषयों/विषयों में इन विषयों/विषयों में विधि निष्ठात
 करने के लिए/विषयों में उचित है/विषयों में

MASTER OF LAWS

Master of Laws
Master of Laws
 MASTER OF LAWS
Master of Laws



380/2

विधि निष्ठात

श्रीधर चरण सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर